

थाना नौगांवा सादात पुलिस द्वारा बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने व हत्या करने वाला वांछित

अभियुक्त 10 घंटे बाद पुलिस मुठभेड में घायल, अवैध शस्त्र व चोरी की मोटर साईकिल बरामद ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में कल दिनांक 17.02.2021 की रात्रि थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा 05 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने व हत्या करने में वांछित अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड घायल अवस्था में गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 16/17.02.2021 की रात्रि ग्राम बिलना में वादी महताब पुत्र अब्दुल हमीद के 05 वर्षीय बच्चे तबिश रेहान का घर के बाहर शाम के वक्त खेलते समय अपहरण कर लेने व 30 लाख की फिरौती मांगने के संबंध में वादी द्वारा थाना नौगांवा सादात पर मु0अ0सं0 58/2021 धारा 364A भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । दिनांक 17.02.2021 को समय पूर्वाह्न करीब 11.50 बजे उक्त बच्चे का शव वादी के घर से 30 मीटर की दूरी पर बनी मस्जिद की छत पर बरामद हुआ जिसके उपरान्त अभियोग में 302/201 भादवि की वृद्धि की गई तथा सूचना पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती सुनीति द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 04 पुलिस टीम गठित की गई । घटनास्थल के पास के लोगो से की गई पुछताछ एवं मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त 1. शमीर पुत्र अनवर व 2. अराफात पुत्र शमशुददीन प्रकाश में आये । फील्ड यूनिट टीम व डाग स्कवॉर्ड द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए गए ।

कल दिनांक 17.02.2021 की रात्रि समय करीब 19.50 बजे खेडी मोड थाना नौगावा सादात से पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त शमीर पुत्र अनवर उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बिलना थाना नौगावा सादात को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त से पुछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुये अपने साथी का नाम अराफात पुत्र शमशुददीन उम्र 25 वर्ष निवासी नई बस्ती फरीदी वाली गली थाना नौगावा सादात बताया । दिनांक 17/18.02.2021 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक थाना नौगावा सादात मय पुलिस बल के मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त अराफात की तलाश मे मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर अल्लेदादपुर चौराहा सरकारी टुवैल के पास खडे अभियुक्त अराफात को आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे । पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिससे अभियुक्त के बाए पैर में गोली लगी । अभियुक्त को वास्ते उपचार हेतु जिला अस्पताल अमरोहा में भर्ती कराया गया है । अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 मोबाइल फोन, चोरी की मोटर साईकिल व एक बैग भी बरामद हुआ । इस सम्बन्ध में थाना नौगावा सादात पर मु0अ0सं0 59/2021 धारा 307/414 भादवि व मु0अ0सं0 60/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अराफात उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अभियुक्तो से घटना मे प्रयुक्त सेलोटैप (जिससे बच्चे का मुँह बांधा गया था) व कापी (जिसका कागज फाडकर लेटर लिखकर फिरौती की रकम माँगी गई थी) भी बरामद की गई है । अपहृत की चप्पल व आधार कार्ड भी अभियुक्त कि निशादेही पर बरामद किया गया ।

पुछताछ विवरण:-

पुछताछ पर अभियुक्त शमीर द्वारा बताया गया कि मैं व अराफात पुराने दोस्त है । अराफात मुम्बई से 08 तारीख को आया था और उसे वापस जाना था पर पैसे नहीं थे और मुझ पर भी करीब 02 लाख रुपये का कर्ज हो गया था । पैसे को लेकर हम दोनो ने प्लान बनाया कि वादी महताब अहमद के लडके तबिश को अपहरण कर फिरौती की मांग करेंगे । इसी योजना के तहत हम दोनो ने दिनांक 16.02.2021 की शाम कारखाने के सामने खेल रहे तबिश को पकडकर अपने कारखाने मे ले गये व टेप को तबिश के मुह पर लगा दिया । अराफात ने 30 लाख फिरौती की रकम के लिये एक चिट्ठी लिखकर मौका मिलते ही महताब के घर के गेट पर रख दी । शोर शराबा होने पर हम दोनो डर गये क्योंकि तबिश हम दोनो को अच्छी तरह जानता था तथा वह बहुत तेज था वह हम लोगो के नाम अपने घरवालो को बता देता और बचने के लिये तबिश का मुंह बन्द कर जान से मार दिया व मौका मिलते ही शव को छिपाने के लिए कारखाने की छत पर चढकर तबिश के शव को मस्जिद की छत पर बनी गुमटी मे रख दिया ताकि कोई न देख सके ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शमीर पुत्र अनवर निवासी ग्राम बिलना थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा उम्र 21 वर्ष ।
2. अराफात पुत्र शमशुदद्दीन निवासी नई बस्ती फरीदी वाली गली थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा उम्र 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण: -

1. आलाकत्ल सेलोटप (जिससे बच्चे का मुँह बाधा गया था) व कापी (जिसका कागज फाडकर लेटर लिखकर फिरोती की रकम माँगी गई थी), मृतक की चप्पल व आधार कार्ड
2. एक तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
3. चोरी की एक मोटर साईकिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

टीम प्रथम

1. निरीक्षक श्री शरद मलिक, पी0आर0ओ0
2. निरीक्षक श्री मोहित चौधरी, प्रभारी स्वाट टीम
3. हे0का0 गौरव शर्मा, स्वाट टीम
4. का0 विजय शर्मा
5. का0 कमल कुमार

टीम द्वितीय

1. निरीक्षक श्री संजय तोमर, प्रभारी सर्विलांस सैल
2. हे0 का0 अनिल कुमार, सर्विलांस सैल
3. का0 योगेश तोमर सर्विलांस सैल
4. का0 अरविन्द कुमार सविलांस सैल

टीम तृतीय

1. निरीक्षक श्री राजेश कुमार प्रभारी थाना नौगावा सादात
2. उ0नि0 सत्यदेव सिंह थाना नौगावा सादात
3. का0 अंकित मलिक थाना नौगावा सादात
4. का0 विजय कुमार थाना नौगावा सादात

टीम चतुर्थ

1. वरि0उ0नि0 रमेश सहरावत थाना नौगावा सादात
2. उ0नि0 संदीप कुमार थाना नौगावा सादात
3. उ0नि0 सोहन सिंह थाना नौगावा सादात
4. का0 यतेन्द्र सिंह थाना नौगावा सादात
5. का0 मोहित कुमारथाना नौगावा सादात